

## प्रेस नोट दिनांक-29.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल तथा उनकी टीम द्वारा एलआईसी तिराहे के पास से अभियुक्त मोहम्मद आरिफ पुत्र इलियास 2. जीनुश पुत्र मोहम्मद शलीम निवासीगण बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को पिकअप नं0 यूपी0 96 टी 2412 में 02 बैस व 05 पड़वा (कुल 07 बैसे) को क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 561/2020 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

02 बैस व 05 पड़वा (कुल 07 बैसे)

पिकअप नं0 यूपी0 96 टी 2412

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला अस्पताल
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मौर्या
3. उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त विनोद सिंह उर्फ डब्बू सिंह पुत्र बोधन सिंह उर्फ छत्रधारी सिंह निवासी चकोर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा व 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 227/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

01 अदद तमंचा व 01 अदद कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला थाना मऊ
2. आरक्षी जितेन्द्र कुमार बिन्द

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री के.के. मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 114/2020 धारा 306/323 भादवि0 के वांछित अभियुक्त शिवमंगल पाण्डेय पुत्र कुम्भा निवासी नागर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. आरक्षी विकास
3. आरक्षी धर्मराज

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं महिला कल्याण व बाल विकास के लिए चलाये जा रहे महाअभियान मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक-29.10.2020 समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा कस्बे एवं विभिन्न ग्रामों एवं कस्बे के बस स्टैण्ड, बाजारों, कोचिंग सेंट्रों, स्कूलों में तथा एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा ज्ञान भारती इण्टर कॉलेज कर्वी, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा बालिका इण्टर कॉलेज राजापुर एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरद्वारा, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा शारदा

आदर्श इण्टर कॉलेज भरतकूप में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा आदर्श इण्टर कॉलेज में जाकर छात्राओ/बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जागरूकता गोष्ठी में सभी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया।